



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
POWER FINANCE CORPORATION LTD.  
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)  
(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित) (ISO 9001:2015 Certified)

सं.: 1:05:138:II:सीएस  
दिनांक: 26 अगस्त, 2021

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
---	---

**विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति।**

महोदया/महोदय,

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, आपको सूचित किया जाता है कि भारत के नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक ने अपने 19 अगस्त, 2021 के पत्र सं. नं./सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएफसी(2)/428 द्वारा दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का संक्षिप्त प्रोफाइल इसके साथ अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न हैं।

आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,  
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)  
सीजीएम एवं कंपनी सचिव  
[mb@pfcindia.com](mailto:mb@pfcindia.com)

## मैसर्स दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का संक्षिप्त प्रोफाइल

दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली वर्ष 1971 से सांविधिक लेखा-परीक्षा, फॉरेंसिक लेखा-परीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा, जोखिम परामर्श, निगमित परामर्श और कर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) परामर्शी सेवाओं से संबद्ध कार्य कर रहे हैं। फर्म के 12 भागीदार और 100 से अधिक सदस्य हैं। फर्म के पास ओएनजीसी लिमिटेड, आईओसीएल लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड जैसी सीपीएसई; सार्वजनिक क्षेत्र बैंक जैसे यूको बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक; भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड और आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसी बीमा कंपनियों की केंद्रीय सांविधिक लेखा-परीक्षा का समृद्ध अनुभव है। फर्म का कार्यालय नई दिल्ली, पंचकुला, फरीदाबाद और गुड़गांव में है।